


## Sidhi Crime News : पुलिस ने तीन लाख की अवैध नशीली सीरप पकड़ी

Publish Date: | Wed, 21 Jul 2021 06:25 PM (IST)



अवैध रूप से नकली सीरप ले जाते हुए पुलिस ने दो आरोपितों को पकड़ा, जिनसे लगभग तीन लाख रुपये की सीरप मिली है।

**सीधी, नईदुनिया प्रतिनिधि।** अवैध नशीली सीरप परिवहन करने वाले आरोपितों को अमिलिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 24 सौ शीशी सीरप बरामद की गई है जिसकी कीमत तीन लाख रुपये से अधिक है। आरोपित स्कॉर्पियो गाड़ी से अवैध सीरप लेकर जा रहे थे। यह कार्रवाई बुधवार को पंकज कुमावत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अंजुलता पटले अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में दीपक बघेला अमिलिया थाना प्रभारी टीम द्वारा किया गया है। आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया है। दीपक बघेला थाना प्रभारी अमिलिया ने बताया कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी में अवैध नशीली सीरप आने की सूचना मिली जिस पर पूनम सिंह चौकी प्रभारी सिहावल टीम सहित घेराबंदी कर मूड़ा पहाड़ पर सफेद स्कॉर्पियो अवैध कप नशीली सिरप के साथ जब्त किया गया।

**क्या था मामला :** थाना प्रभारी अमिलिया उपनिरीक्षक दीपक बघेल को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की एक स्कॉर्पियो वाहन में नशीली कफ सीरप की तस्करी की जा रही है। सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी अमिलिया द्वारा तत्परता पूर्वक अलग अलग टीमों गठित की गई एवं मुखबिर के बताए स्थान पर घेराबंदी कर कौदौरा मूड़ा पहाड़ पर हनुमना तरफ से आ रही एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो क्र. एमपी 04 बीए 7198 को रोककर देखा गया। वाहन में दो संदेही प्रवेश गुर्जर पुत्र शिवसागर गुर्जर 21 वर्ष निवासी करथुआ थाना जियावन जिला सिंगरौली और सुदीप कुमार सिंह गहरवार पुत्र योगेन्द्र बहादुर सिंह गहरवार 25 वर्ष निवासी रामडीह थाना बहरी जिला सीधी सवार थे। जिनको पकड़कर वाहन की तलाशी ली गई। तलाशी लेने पर वाहन में 24 सौ शीशी नशीली कफ सीरप मिली। क्रय विक्रय एवं परिवहन के संबंध में दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण उपरोक्त दोनों आरोपियों को हिरासत में लेते हुए वाहन कीमती लगभग 6 लाख एवं 24 सौ नग कफ सीरप कीमती लगभग 3,57,600 रुपये जप्त कर पुलिस कब्जे लिया गया।

**कार्रवाई में ये रहे शामिल :** कार्रवाई में उनि पूनम सिंह, सउनि समयलाल वर्मा, प्रआर रावेन्द्र सिंह, प्रआर गुलाब सिंह, आर विवेक व्दिवेदी, आर. श्यामलाल, आर. महेन्द्र तिवारी, आर अनिल यादव, आर. रामगोपाल, आर. प्रकाश सिंह, आर. दिनेश रावत, आर.पालन सिंह, आर. अभिषेक त्रिपाठी एवं चालक आर. अखिलेश तिवारी का विशेष योगदान रहा।

Source: <https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/satna-sidhi-crime-news-police-caught-illegal-narcotic-syrup-worth-three-lakhs-6980163>